

APL/SECT/DLH/SE: 2021-22



Electronic Filing

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051 Department of Corporate Services/Listing BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

NSE Symbol: APLAPOLLO

Scrip Code: 533758

Dear Sir/Madam,

Re: Newspaper Advertisement of Notice of meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of APL Apollo Tubes Limited convened pursuant to the directions of the National Company Law Tribunal – New Delhi Bench IV in the matter of scheme of amalgamation and arrangement between Shri Lakshmi Metal Udyog Limited, Apollo Tricoat Tubes Limited and APL Apollo Tubes Limited and their respective shareholders and creditors.

In continuation of our letter dated 6th January 2022 informing about meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of APL Apollo Tubes Limited being convened pursuant to the directions of the Hon'ble National Company Law Tribunal – New Delhi Bench IV in the matter of scheme of amalgamation and arrangement between Shri Lakshmi Metal Udyog Limited, Apollo Tricoat Tubes Limited and APL Apollo Tubes Limited and their respective shareholders and creditors, please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisement of notice of abovesaid meetings, given in the following newspapers on Saturday, January 8, 2022:

- 1. "Business Standard" (English, Delhi Edition)
- 2. "Business Standard" (Hindi, Delhi Edition)

The Company has completed the dispatch of respective Notices through permitted mode to all the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company on January 6, 2022.

We request you to kindly take the above information on your record.

Yours faithfully

For APL Apollo Tubes Limited

Deepak C S

Company Secretary M. No.: FCS-5060

APL Apollo T505 Lin/led (CIN-L74899 DL 1986PLC023443)

Corp. Office: 36, Kaushambhi, Near Anand Vihar Terminal, Delhi (NCR) - 201010, India Tel:+91-120 4041 400/401/402 | Fax: +91-120 4041 444

Corp. Office: Tapasya Corporate Heights, 4th Floor, Tower A, Sector 126, Noida, Uttar Pradesh 201303, India Tel: +91-120 4742 700/701

Unit - 1 : A-19, Industrial Area, Sikandrabad, Distt. Bulandshahar, U.P.-203205 India Unit - 2 : 332-338, Alur Village, Perandapali, Hosur, Tamilnadu-635109 India

Unit - 1 : A-17, Industrial Area, Sikandrabad, Distr. Bulandshahar, U.F.-203205 India Unit - 2 : 332-338, Alur Village, Perandapati, Hosur, Taminadu-635109 India Unit - 3 : Plot No. M-1, Additional M.I.DC. Area, Kudavali, Murbad, Maharashtra, thane-421401, India Unit - 4, : Village Bendri Near Urla Indl. Area Raipur, Chhattisgarh -493661, India

E-mail: info@aplapollo.com Web: www.aplapollo.com

Pop Branch office Kutchary road Ajmer Email bo0008@pnb.co.in Mobile NO. 8003897870 POSSESSION NOTICE (For Immovable property/ies)

As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Whereas. The undersigned being the authorized officer of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security (34 of 2002) and in exercise of powers conterfer ouncer section 13(12) read with rule 3 of the Sectimy Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated 05.08.2021 Calling upon the borrower M/s Deepak Minerals through its Prop. Smt. Pooja Sareen W/o Sh. Sunil Sareen to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 43,67,428.83 (Rupees Forty Three Lakh Sixty, Seven Thousand Four Hundred Twenty Eight and paisa Eighty Three only) as on 10.07.2021 (interest charged up to 30.06.2021) together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the saic notice. The borrower hand the plus in pregrat that the undersigned has taken possession of the property described harein below in notice. The borrower naving tailed to repay the amount, notice is nereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub section (4) of the section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this the **04th Day of January of the year 2022**. The Borrower/Guarantor/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property/is will be subject to the charge of the Punjab National Bank, Branch Kutchary Road Ajmer for an amount **Rs. 43,67,428.83** (Rupees Forty Three Lakh Sixty Seven Thousand Four Hundred Twenty Eight and paisa Eighty Three only) as or 10.07.2021 (interest charged up to 30.06.2021) and future interest thereon at the contractual rate plus costs. Charges and expenses till date of navment plus costs, charges and expenses till date of payment.

The Borrowers attention is invited to provision of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of the available to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Equitable Mortgage of industrial land property situated at Khasra No. 1408/323, Village Jiliya, Tehsi Kuchaman City, Dist. Nagaur Rajasthan standing in the name of Smt. Pooja Sareen W/o Sh. Suni Sareen admeasuring 2860 Sq Mtr. Boundaries are as underNorth:- Agri Land South:- Agri Land East Road, West:- Agri Land.

Date : 04.01.2022 Place: Kuchaman Distt. Nagour Authorized Officer, Punjab National Banl

State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch **n** SBI Matrix Mall, 3rd Floor, Sector – 4, Jawahar Nagar, Jaipur (Rajasthan) -302004, **E-mail** : <u>sbi.18184@sbi.co.in</u>, **Tel.:** 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

'APPENDIX-IV-A" [See proviso to rule 8(6)]

E-Auction Sale notice for sale of immovable property -Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read

with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described the immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised officer of **State Bani** of **India**, **Stressed Assets Recovery Branch (SARB)**, **Jaipur (Raj.)**Secured Creditor, will be e auctioned on "As is where is", "As is what is", "whatever there is and "without recourse" basis on 27.01.2022, for recovery of Rs. 64,00,112.00 (Rupees Sixty Four Lakh One Hundred Twelve Only) inclusive of interest upto 19.09.2019 plus further interest, cost, charges & other expenses etc. due to the State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj. Secured Creditor) from Borrower Sh. Prabhat Mal Saini S/o Sh. Tejmal & Smt. Nivedita R Saini W/o Sh. Prabhat Mal Saini. The reserve price and earnest money will be as per below nentioned, the latter amount to be deposited as per procedure detailed in Terms and Condition: f the Auction at the Bank's / MSTC website well before **27.01.2022.**

S. No.		1. Reserve Price 2. EMD Amount	Time
1	All the part and partial of Flat No. B-901, 8th Floor, Block-B,	1 Rs 18 63 Lac	From
	Gurushikhar, Village Nanakpura, Hema Ki Nangal,	2 Po. 1 97 Los	12.00
	Sanganer, Jaipur, (Raj.) Standing in the name of Sh. Prabhat Mal Saini S/o Sh. Teimal. Total Measuring Area: - Built up 923		Noon to
	Sqft. & Super Built up 1154 Sqft. CERSAI ID- 200012807932		12.30 PM
2	All the part and partial of Flat No. B-806, 7th Floor, Block-B,	11.NS. 20.09 Lau	From
	Gurushikhar, Village- Nanakpura, Hema Ki Nangal, Sanganer, Jaipur, (Raj.) Standing in the name of Sh. Prabhat Mal Saini		12.00
	S/o Sh. Tejmal. Total Measuring Area: - Built up 1268 Sqft. &		Noon to
	Super Built up 1585 Sqft. CERSAI ID- 200012604705		12.30 PM
For	detailed Terms and Conditions of the sale, please refer	to the link provided	in State

Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.) Secured Creditor's https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others and https://ibapi.in/Sale_Info_Home.aspx **Authorised Office** Date: 01.01.2022 Place: Jaipur (Rai.

FORM NO. CAA. 2 [Pursuant to Section 230(3) of Companies Act, 2013 and rules 6 and 7 of the

Companies (Compromises, Arrangements, and Amalgamations) Rules, 2016] Company Application (CAA) No. 107/(ND)/2021

IN THE MATTER OF THE SCHEME OF AMALGAMATION BETWEEN SHRI LAKHSMI META UDYOG LIMITED AND APOLLO TRICOAT TUBES LIMITED AND APL APOLLO TUBES LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

Notice and Advertisement of Notice of the meetings of members and creditors

- Shri Lakshmi Metal Udyog Limited, a company incorporated under the Companies Act 1956 having Corporate Identification Number : U85110DL1994PLC224835 and having it registered office at 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi – 110092 ... Applicant Company 1/ Amalgamating Company
- Apollo Tricoat Tubes Limited, a company incorporated under the Companies Act 1956 having Company Identification Number: L74900DL1983PLC014972 and having its registered office at 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi – 110092
- ... Applicant Company 2/ Amalgamating Company
- APL Apollo Tubes Limited, a company incorporated under the Companies Act 1956 having Company Identification Number: L74899DL1986PLC023443, and having its registered office at 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi – 110092

... Applicant Company 3/ Amalgamated Compan "Applicant Company 1", "Applicant Company 2" and "Applicant Company 3" are hereinafte

rred to as "Applicant Companies" Notice is hereby given that by an order dated November 30, 2021, in Company Application No. CA (CAA) No. 107/(ND)/2021 ("Order"), the New Delhi Bench of the Hon'ble National Company Lav Tribunal ("NCLT") has directed separate meetings to be held of the Equity Shareholders Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Applicant Companies through Video Conferencing ("VC"), for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or withou modification, the proposed Scheme of Amalgamation made under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 ("CA 2013"), and other applicable provisions under the CA 2013, bet Shri Lakshmi Metal Udyog Limited ("Applicant Company 1" or "Amalgamating Company 1" Apollo Tricoat Tubes Limited ("Applicant Company 2" or "Amalgamating Company 2") and APL Apollo Tubes Limited ("Applicant Company 3" or "Amalgamated Company") and their respective shareholders and Creditors ("Scheme"). Details of the meetings to be convened an

provided hereunder -

S. No.	Name of the Applicant Company	Class of Meetings	Day and Date of Meetings	Time (IST)	Deemed Place of Meeting
1	Shri Lakshmi Metal	Equity Shareholders		10:00 A.M.	
2	Udyog Limited	Secured Creditors	Monday,	11:30 A.M.	
3		Unsecured Creditors	7 th February,	12:30 PM	
4	Apollo Tricoat Tubes	Equity Shareholders	2022	4:30 P.M.	Meeting to
5	Limited	Secured Creditors		2:30 P.M.	be conducted
6		Unsecured Creditors		3:30 P.M.	through VC
7	APLApollo Tubes	Equity Shareholders	Tuesday,	2:00 P.M.	
8	Limited	Secured Creditors	8 th February,	10:30 A.M	
9	1	Unsecured Creditors	2022	11:30 A.M.	1

In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic and ongoing social distancing norms, and in erms of the Order, meeting will be held through VC following the operating procedure as per the General Circular No. 14/2020 dated April 8. 2020 read with General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 read with General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020 read with Genera Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 read with General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 read with General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 and, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA" Accordingly, there shall be no meeting requiring physical presence at a common venue.

Since the meeting is being held through VC, physical attendance of members/creditors has bee dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies will not be available for the meetings. Institutional investors and Body Corporates who are Members/ Creditors of the respective Applicant Company are encouraged to attend the Meeting of the Company through VC ode and vote electronically and are entitled to appoint Authorised Representatives to attend this Meeting through VC and participate there at and cast their votes through voting by electronic means. They are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of the Board Resolution Power of Attorney authorizing its representatives to attend and vote at the Meeting through VC or its behalf pursuant to Section 112 and 113 of the Act to the Scrutinizer by e-mail to corpsrassociates@gmail.com with a copy marked to comsec@aplapollo.com.

The Applicant Companies have appointed Central Depository Services (India) Limited ("CDSL" for providing remote e-voting and e-voting facility for the meeting of Equity shareholders and Creditors(or their authorized representatives, as the case may be) (as applicable) to attend and participate in the Meeting through VC. The remote e –voting facility is provided only to the equit shareholders of Applicant Company 2 and Applicant Company 3.

Copies of the said Scheme and the statement under Section 230 of CA 2013 can also be obtained free of charge at the registered office of the Applicant Companies at 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi – 110092. A copy of the Notice for the Meeting along with the Explanatory Statemen under Sections 230 to 232 and 102 and other applicable provisions of the CA 2013 read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 is also available on the websites of the Applicant Company 2 at www.apollotricoat.com and Applica Company 3 at www.aplapollo.com

Members of the Applicant Company 2 and Applicant Company 3 are entitled to attend and vote a the Meeting through VC or may vote through electronic means prior to be meeting in compliance with the provisions of CA 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirer Regulations, 2015 for a period of 4 days. Given below is the schedule of remote e-voting-

S. No.	Name of the Commencement of Applicant Company Remote E-voting		End of Remote E-voting		
1	Apollo Tricoat Tubes	Thursday, February 03, 2022 at	Sunday, February 06, 2022 at		
	Limited	10:00 A.M. IST	5:00 P.M. IST		
2	APL Apollo Tubes	Friday, February 04, 2022 at	Monday, February 07, 2022 at		
	Limited	10:00 A M. IST	5:00 PM IST		

Persons entitled to attend and vote at the respective Meetings through VC may vote through electronic means during the meeting using e-voting facility being provided by CDSI

In case of any query/concern/grievance, members may write to Applicant Company 1 shivam@aplapollo.com, Applicant Company 2 at surbhiarora@apollotricoat.com and Applican Company 3 at investors@aplapollo.com.

The NCLT has appointed Ms. Deepa Krishan, Former Member (Technical), NCLT, failing wl Ms. Swarlipi Deb Roy, Advocate, as Chairperson for the aforementioned meetings. The NCL has also appointed Ms. Shruti Rawat, PCS as the Scrutinizer for the aforementioned meetings including for any adjournment(s) thereof. The abovementioned Scheme, if approved at the Meeting, will be subject to the subsequent approval of the New Delhi bench of Hon'ble NCLT.

Dated this 7th day of January, 2022.

Ms. Deepa Krisha Chairperson appointed for the Meetings of Applicant Companies

YES BANK LIMITED YES // BANK

Regd. & Corporate Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055 CIN: L65190MH2003PLC143249, E-mail: communications@yesbank.in, Website: www.yesbank.in

POSSESSION NOTICE (U/s. Rule 8 (1) - for immovable property

The undersigned being the Authorized Officer of YES Bank Ltd. under the provisions of the Securitisation an Reconstruction of Financials Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 and in exercise of powers conferred under Sec.13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated **21-Oct-2021** calling upon the respective borrower, Co-Borrowers, Guarantors/Mortgagor mentionen ereunder to repay the amounts mentioned in the notice U/s.13(2) of the said Act within a period of 60 days.

The respective borrower, Co-Borrowers, Guarantors/Mortgagor having failed to repay the said amounts, notice hereby given to the borrower Co-Borrowers, Guarantors/Mortgagor and public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me unde Sec. 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the 6th day of Jan of the year 2022.

The respective borrower, Co-Borrowers, Guarantors/Mortgagor in particular and public in general are hereby

cautioned not to deal with the said property and any dealing with the property will be subject to the charge of the YES Bank Ltd. for the amount mentioned herein below along with interest thereon at contracted rate.					
Name of Borrower	Nature of Facility and A/c No.	Notice Amount (Rs.) As on 18-Oct-2021			
M/s Time Gallery, through its Proprietor Mr. Rajiv Sehg (Borrower), Mr. Rajiv Sehgal (Guarantor & Mortgagoi Mr. Akhil Sehgal, and Mr. Nikhil Sehgal (Guarantors)		Rs. 65,45,449.19/-			
M/s Waqt, through its Proprietor, Mr. Akhil Sehgal (Borrower), Mr. Rajiv Sehgal (Guarantor & Mortgagor Mr. Akhil Sehgal, and Mr. Nikhil Sehgal (Guarantors)	'Overdraft'- A/c No.: 006984600001016 (M/s Waqt)	Rs. 81,45,575.58/-			
M/s Waqt, through its Proprietor, Mr. Akhil Sehgal (Borrower)	Working Capital Terms Loan under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme- A/c No. 069LA40201850001 (M/s Waqt)	Rs. 16,12,931.37/-			
M/s E L Reloj, through its Proprietor, Mr. Nikhil Sehg (Borrower), Mr. Rajiv Sehgal (Guarantor & Mortgagor Mr. Akhil Sehgal, and Mr. Nikhil Sehgal (Guarantors)		Rs. 54,83,734.63/-			
M/s E L Reloj, through its Proprietor, Mr. Nikhil Sehgal (Borrower)	Working Capital Terms Loan under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme- A/c No. 069LA40201860001 (M/s E L Reloj)	Rs. 10,82850.66/-			
M/s Time Gallery, through its Proprietor Mr. Rajiv Sehg (Borrower), Mr. Rajiv Sehgal (Co-Borrower & Mortgagor M/s Waqt, through its Proprietor, Mr. Akhil Sehgal, Mr. Akhil Sehgal, M/s E L Reloj, through its Proprieto Mr. Nikhil Sehgal, Mr. Nikhil Sehgal (Co-Borrowers)	'Secured Business Loan- Term Loan' A/c No.	Rs. 1,65,92,642.19/-			
M/s Time Gallery, through its Proprietor Mr. Rajiv Sehg (Borrower), Mr. Rajiv Sehgal (Co-Borrower & Mortgago M/s Waqt, through its Proprietor, Mr. Akhil Sehgal, Mr. Akhil Sehgal, M/s E L Reloj, through its Proprietor Mr. Nikhil Sehgal, Mr. Nikhil Sehgal (Co-Borrowers)	'Secured Business Loan- Term Loan' A/c No.	Rs. 30,73, 551.06/-			
M/s Time Gallery, through its Proprietor Mr. Rajiv Sehg (Borrower), Mr. Rajiv Sehgal (Co-Borrower & Mortgago M/s Waqt, through its Proprietor, Mr. Akhil Sehgal, Mr. Akhil Sehgal, M/s E L Reloj, through its Proprietor Mr. Nikhil Sehgal, Mr. Nikhil Sehgal (Co-Borrowers)	Loan' under Working Capital Terms Loan under the Emergency	Rs. 48,06,061.44/-			
	Total	Rs. 4,73,42,796.12			
DESCRIPTION OF IMMO	VABLE PROPERTY				
Description of the mortgaged property	Boundaries	Mortgagor			
All the piece and parcel of the Property bearing Plot No. 60, Block, J-8, Rajouri Garden, New Delhi-110027 admeasuring about 160 Sq. Yds.	East: Plot No. J/8-59 West: Plot No. J/8-61 North: Road South: Service Lane				

As contemplated U/s.13(8) of the Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold of transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset Sd/- (Authorized Office) Place : Delhi

Date : 06-Jan-2022 Yes Bank Limited

Pup

Circle Sastra Centre, Bharatpur

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Security Interest Act, 2002 or Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provise to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Bank/ Secured Creditor (s) what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table hereir below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the

ear	earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties. SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS								
	Name of	Description of	(A) Date of Demand		(A) Reserve Price		Details of		
4	the Branch	properties along with name of	notice u/s. 13(2) of SARFAESI Act, 2002	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	(B) EMD amount/	Date/time of	any other		
Lot no.	Details of the mort	mortgagors	(B) Outstanding	possession & date	last date of EMD deposit	e-auction	encum-		
	borrowers/ guarantors	(Owner of the properties)	amount		(C) Bid Increase value		brance		
1.	PNB- Bari,	All that part parcel	(A) 22.08.2019		A) Rs. 6,89,000/-	31.01.2022/	Not		
	Distt. Dholpur (Raj)	of the property	(B) Rs. 1576308.27 (in			12:00 noon	Known		
	Borrower: M/s R. K.	equitable mortgage of house at ward	words Rupees fifteen lacs seventy six	D	B) Rs. 68,900/-	to			
	Redymade Garments, Prop Sh. Rakesh	no. 3, Monalia	thousand three hundred		28.01.2022	17:00 PM			
	Kumar. Address- Aligarh Road, Gumat, Bari, Dholpur (Raj.)	Gumat- Bari, Tehsil- Bari, DisttDholpur (Raj.). Admn	eight and paise twenty seven only)as on 31.07.2019 payable	08.01.2020	C) Rs. 1000/-				
	Guarantor: Smt.	569.25 sq. ft., in the	with further interest &						
	Munni Devi w/o Sh.	name of Smt. Munni Devi w/o Sh. Fusiya	cost minus recovery, if any, until payment in full						

1.		All that part parcel	(A) 22.08.2019		A) Rs. 6,89,000/-	31.01.2022/	Not
	Distt. Dholpur (Raj)		3) Rs. 1576308.27 (in	Physical		12:00 noon	Known
	Borrower: M/s R. K. Redymade Garments.	of house of word	ords Rupees fifteen acs seventy six	Possession	B) Rs. 68,900/-	to	
	Prop Sh. Rakesh	no. 3, Mohalia 🛚 🍴	ousand three hundred	Taken	28.01.2022	17:00 PM	
	Kumar. Address-	Gumat- Bari, Tehsil- _e	ight and paise twenty	on			
	Aligarh Road, Gumat,	∣ Bari, DisttDholpur ∣ _S	even only)as on		C) Rs. 1000/-		
	Bari, Dholpur (Raj.)	(Raj .). Admn 3	1.07.2019 payable	00.01.2020	0,110,1000		
	Guarantor: Smt.		ith further interest &				
	Munni Devi w/o Sh.		ost minus recovery, if				
	Fusiya.		ny, until payment in full				
2.	PNB- Dholpur City, Dis Dholpur (Raj)-328001	tt. All that part parce of the Land and	(11) 1110012010	Physical Possession	A) Rs. 97,00,000/-	31.01.2022/ 12:00 PM	Not Known
	Borrower: M/s Devin	dra building at khasra			В)	1	
	Traders, Prop Devin	dra no 591 situated a		Taken	Rs. 9,70,000/-	to	
	Lakra, Add C/3, SFS			on		17:00 PM	
	A DabriMord, Janakı West C-4, Delhi- 110		lacs fourty three	02.03.2020	28.01.2022		
	Guarantor: Smt. Navita		thousand eighty		C)		
	Devindral akra Add - (C/3 Development of the	five and paisa 72		Rs. 1,00,000/-		
	SFS 320 A DabriMo	ord, Admes 507 sq	only) as on				
	Janakpuri West C-4, De	lhi- varde Boundaries					
	110058/ H. no. 663, N	learl '					
	iwasiu, Goyapark, Vi Mundaka Delhi/ H	No Jagdish, W:- Road	, further interest 9				
	Masjid, Gogapark, V Mundaka, Delhi./ H 678/679 Khasra No	N:- Property of Sh	. Turther interest &				
	Village Bindap	ur Amrit Lai & Sh.	cost minus				
	Najafgarh, Delhi	Satpal, S:- Road	recovery, if any				
	PNB- Bari, Distt. Dholpur (Raj)	All that part parcel of the property of equitable	(74) 00.00.2010	Symbolic Possession	(A) Rs. 1350000	31.01.2022/	Not Known
	Borrower: Sajid S/o	mortgaged of house	(B) Rs. 12,14,218/- (in words Rupees	Taken		12:00 noon	Allowii
	Shri Samsuddin,	mohalla haveli pada,	twelve lacs fourteen	l	(B) Rs. 1,35,000	to	
	Add Sant Ras Pada,	Bari, Tehsil- Bari, Distt	thousand two hundred	on 24.10.2019	28.01.2022	17:00 PM	
	Sher Gali, Bari,	Dholpur, Raj., admeasuring 97.54 sq.	and eighteen only) as	24.10.2019			
	Dholpur	mtr standing in the	on 29.07.2019 payable with further		(C) Rs. 10000/-		
	Guarantor: Shri	name of Shri Sajid s/o	interest & cost minus				
	Sikandar S/o Shri	Shri Samsuddin	recovery, if any, until				
	Samsuddin		payment in full.				
	PNB- Weir, Distt.	Plot and Building a		Symbolic	A)	31.01.2022	Not
	Bharatpur (Raj)	Khasra 1569/636 villag			Rs. 18,47,000/-	/	Known
	Borrower: M/s	Dharsoni Hantra wei	r Samiti to repay the	Taken on	В)	12:00 PM	
		Road Tehsil Weir Dis Bharatpur admn 728.4	althe notice being De	28.01.2021	Rs. 1,84,700/-	to	
	Samiti (1) Kamlesh	sgmtr. In the name of				17:00 noon	
	Sharma W/o Shiv Ram Sharma (President)	Sabarmati Shiksha sami			28.01.2022		
	(2) Prem Singh S/o	Bounded- North- 37.50 M	/ Thousand Four		C)		
	R'am khi ladi	on this side, South	- Hundred Fifty Two		Rs. 10000/-		
	(Secretary) (3) Baldey	17m*18.11 M on thi	s Rupees) as on				
	Singh (Guarantor)	side, East- 27.16 M o	n 22.06.2020 with				
	VPO Dhàrsoni Tehsil	this side, West-26.16N	Inturther interest &				
	Weir Dist: Bharatpur	on this side	other charges thereon				
_	PNB- Jawahar Nagar,	Desidential and the	(4) 45 05 0004	Symbolic	۸۱	04 04 0000	Nat
	Bharatpur (Raj)-	Residential property	(B) Rs. 1635750.02	Taken	A)	31.01.2022	Not
	321001	situated at quarter	(in words Rupees	on	Rs. 1566000/-	_ /	Known
	Borrower:	no 70, deendayal	sixteen lakh thirty	011	B)	12:00 PM	
	Shrisatyavrath Kayal		five thousand seven	00.10.2021	Rs. 156600/	to	
	S/o Anil Kayal D-63,	nagar, bharatpur	hundred fifty and		28.01.2022	17:00 noon	
	Ranjeet nagar at		two paise only) as on			1	
	present Sarafa bazar		28.06.2021 payable		C)		
			with further interest		Rs. 5000/-		
	present Sarafa bazar						

recovery, if any TERMS AND CONDITIONS- The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 1. The properties are being sold on AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" 2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the uthorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation, 3. The Sale wi Date: 06.01.2022 Place: Dholpur/Bharatpur Statutory sale notice under rule 8(6) of the Sarfaesi act, 2002 Punjab National Bank



MENTOR HOME LOANS INDIA LTD

HEAD OFFICE- Mentor House, B-9, Govind Marg, Sethi colony, Jaipur-302004 Phone:0141-2611999,8946800800, E-Mail: legal01@mentorloans.co.in

APPENDIX IV [See Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Mentor Home Loans India Ltd. (Formerly known as Mentor India Limited) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) Read With Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice (S) Issued by the Authorised Officer of the Company to the Borrower(S) / Co-Borrower(S) / Guarantor(S) mentioned herein below to repay amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of said notice as per the details given in below

	he public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under Sub-Section (4) of the section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002.								
S No	Co.Borrower (S) / Guarantor(S)	Date & Amount of Notice u/s 13(2)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Date of Physical Possession					
1.	Pramod Yogi, Shayar Devi, Rakesh Yogi, Guarantor- Shispal Yogi LAN No MJCH00226	Rs.378620.96 Dues	Plot No. 36, Shree Balaji Nagar, Dabdi, Sikar Road, Tehsil Amer, Dist. Jaipur, Rajasthan. Total Admeasuring Area 125 Sq. Yds.						
2.	Om Prakash Saini, Kani Devi, Ramchandra Saini, Guarantor- Suresh Dhanka, LAN NoMHL05376	Rs.1783906/- Dues	Plot No. 31 (Area 223.36 Sq. Yds.) & Plot No. 32 (Area 218.05 Sq. Yds.), Shree Balaji Vihar 6th, Dolatpura, Benad Road, Dist. Jaipur, Rajasthan.						

table. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(S) / Co-Borrower(S) / Guarantor(S) and

The borrower(S) / Co borrower(S) / Guarantor(S) attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect o time available, redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Mentor Home Loans India Ltd. (Formerly known as Mentor India for an amount, amount mentioned here under with interest thereon. Authorised officer, Mentor Home Loans India Ltd Date: 08-01-2022 Place: Jaipur (Formerly Known as Mentor India Limited)

E kotak[®]

KOTAK MAHINDRA BANK LTD. Registered Office: 27, BKC, C-27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051

Branch Office: 1/11, 1st Floor, East Patel Nagar, New Delhi – 110 008 Corporate Identity Number - L65110MH1985PLC038137

E - AUCTION CUM SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforce of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) read with proviso to Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules

Notice is hereby given to the Public in general and in particular to the Borrower (s), Guarantor (s) and / or Mortgagor (s), that the below describe immovable property(ies) mortgaged / charged to Kotak Mahindra Bank Limited ("Secured Creditor"), the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold through E-Auction on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS", an "WHATEVER THERE IS BASIS" on 1st February 2022 for recovery of Rs.21,69,45,301.63/- (Rupees twenty one Crore sixty nine lakhs forty five thousand Three hundred one and paisa sixty Three only) as on 31st May 2018 together with further interest and other charges thereon at the contractual rates upon the footing of compound interest until payment/realization due to Kotak Mahindra Bank Limited, being the Secured Creditor, from the Borrower/s namely F6 FINSEVER PVT. LTD. and F6 COMMODITIES PVT LTD. (Borrowers) and 1. Mr. Pankaj Goel 2. Mrs. Meenu Goel, 3. Mr. Sanjay Anand, 4. Mrs. Kavita Anand, Mr. Praveen Sharma, Mrs. Asha Sharma, Mrs. Ruchika Goel, Mr. Deepal Goel (Guarantors and/or Mortgagors). The details / description of Immovable Properties put up for auction, the Reserve Price, the Earnes

Mon	loney Deposit and the Auction Schedule are mentioned below:							
Sr.	Name of the	Details Of Immovable/Movable	Reserve Price (INR)					
No	Mortgagor/s	Property put for E – Auction	(INR)/ Earnest Money Deposit					
1.	Mr. Pankaj Goel and Mrs. Meenu	All that peace and parcel of land bearing, wherein Office Space bearing Private No. 206, admeasuring 3063.9 Sq. Ft. and situated at Second Floor in Sewa Corporate park/Corporate Suites at M.G. Road, in the revenue estate of Sirhaul, Tehsil and District Gurgaon, Haryana	Rs. 4,50,00,000/- (Rupees Four Crore Fifty lakh only)					
	Goel	and bounded as under: North: Office space no. 205, South: Office Space No. 207, East: Corridor, West: Open together with proportionate undivided share in the land underneath common area, facilities and all buildings, structures, installations, fitments, plants and machinery, if any, affixed to the earth or permanently affixed to something attached to the earth.	Rs. 45,00,000/- (Rupees Forty Five Lakh only)					
2.	Mrs. Meenu Goel	All that piece and parcel of land bearing, wherein Office Space bearing Private No. FF 407, on Fourth Floor having super area of 2001.50 Sq.ft. (covered area of 1300.975 sq.ft.) and open balcony having an area about 199.02 sq.ft. facing M.G. Road, along with four inside Reserved Car Parking Spaces in the Upper Basement out of "Sewa Corporate Park" on M.G. Road, in the revenue estate of Village Sarhaul, Tehsii and District Gurgaon, Haryana and bounded as under: North: Corridor, South: Office Space Unit 408, East: Office Space Unit 406, West: Open together with proportionate undivided share in the land undermeath. Along with common area, facilities and all buildings, structures, installations, fitments, plants and machinery, if any, affixed to the earth or permanently affixed to something attached to the earth.	Rs. 4,50,00,000/- (Rupees Four Crore Fifty lakh only) Rs. 45,00,000/- (Rupees Forty Five Lakh only)					

The undersigned may at his absolute discretion and on request from the prospective buyers, arrange for inspection of the said property on 21st January 2022 between 2.30 pm to 04:00 PM through his Authorised representative/agent.

mportant Terms and Conditions:

Important Terms and Conditions:

not earn any interest.

- The E Auction shall be conducted only through "On Line Electronic Bidding" through website https://kotakbank.auctiontiger.net on 1st February 2022 between 11:00. A.M. to 12:00 Noon. with unlimited extensions of 5 minutes duration each. For details about E-Auction, the intending bidders may contact Ms E-Procurement Technologies Ltd., B-704-5, Wall Street-II, Opp. Orient Club, Nr. Gujarat College Road, Ellis Bridge, Ahmedabad, contact person Mr. Ram Sharma- 06351896834, Email: delhi@auctiontiger.net;
- ramprasad@auctiontiger.net,. Helpline No. 079-61200595/520/548. Helpline email id-support@auctiontiger.net. The intending bidders may visit the Bank's official website - https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html for auction details and for the
- terms and conditions of sale.

 For detailed terms and conditions of auction sale, the bidders are dvised to go through the portal https://kotakbank.auctiontiger.net and the
- said terms and conditions shall be binding on the bidders who participate in the bidding process.

 It is requested that the interested Bidder/s are required to generate the login ID and password from the porta
- https://kotakbank.auctiontiger.netbefore uploading the bid and other documents.

 The bid form has to be filled in the prescribed form and is to be submitted / uploaded online only along with KYC documents of the Bidder/ on the portal https://kotakbank.auctiontiger.net on or before 31st January 2022 upto 4.00 P.M. and the scanned copies of the duly filled and signed bid documents and KYCs of the Bidder/s should be sent by mail to Viswanadham.akondi@kotak.com and vikram.sharma@kotak.com .The Bidder shall write the subject of the email "For purchase of Property in the account of "F6 FINSEVER
- PVT. LTD. and F6 COMMODITIES PVT LTD". Prospective bidders may avail online training, for generating Login ID and password and for online bidding process etc., from M/s. E
- Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) on above mentioned contact numbers.

 Earnest Money Deposit (EMD) shall be deposited through RTGS/NEFT/FUND TRANSFER to the credit of Account No. 06410125272001, Kotak Mahindra Bank Ltd., Nariman Point Branch, Mumbai, IFSC Code: KKBK0000958, on or before 31st-January-2022 upto 4.00 P.M. Any bid submitted without depositing the EMD amount shall stand automatically rejected. The EMD deposited by the proposed bidder shall
- The bid price to be submitted shall be equal to and / or above the Reserve Price and during the bidding process, bidders who have submitted bids shall improve their further offers in multiples of Rs 1,00,000 /- (Rupees One Lakhs Only) In case any bid is placed within last 5 minutes of the closing time of the e-auction proceeding, the closing time shall automatically and
- immediately get extended by another 5 minutes The successful bidder has to deposit 25% of the highest bid amount (including EMD already paid) immediately on closure of the e-auction sale proceedings or on the following working day in case business hours is closed on the day of E-Auction, in the mode stipulated as above
- The balance 75% of the highest bid amount shall have to be deposited within 15 days from the date on which the acceptance /confirmatio of sale is conveyed to such successful bidder or such extended period which shall be at the sole discretion of the Authorised Officer and within the provisions of SARFAESI Act, 2002 and the Security Interest Rules, 2002. Please note that the time line for payment of the sale consideration would not be extended and the successful auction purchaser will not have any right to claim FORCE MAJURE, in the even The highest bidder will not have any right and title over the property until the Sale Certificate is issued in his favour subject to realisation of
- entire Auction Price and other incidental expenses. Sale shall be subject to terms and conditions of E- Auction and confirmation by the Secured Creditor to that effect. If the successful bidder fails to deposit the entire bid / auction amount, the amount already deposited by the successful bidder shall be
- forfeited and the defaulting bidder shall neither have claim on the property nor on the amounts deposited. The Authorised Officer shall be free to exercise any one or more rights available to him in terms of the provisions of SARFAESI Act, 2002 and the Security Interest Rules 2002 in respect of the auction property/ies On receipt of the entire sale consideration within the stipulated period as mentioned above, the Authorised Officer shall issue the Sale
- Certificate, the sale shall be completed thereafter, and Kotak Mahindra Bank Limited shall not entertain any claims. The sale certificate shall be issued in the same name in which the Bid is submitted. No request for inclusion/substitution in the sale
- certificate of names of any person(s) other than those mentioned in the bid shall be entertained The EMD amount, to the unsuccessful bidder/s, shall be returned by Kotak Mahindra Bank Ltd, in their accounts by way of RTGS / NEFT.
- Funds Transfer, within 10(Ten) working days and without any interest. The Authorised Officer has the absolute right to accept or reject a bid or postpone/cancel the notified E – Auction Sale without assigning any reason. In the event of postponement/cancellation of the F - Auction Sale after submission of the bids. FMD submitted by the bidders will be
- returned, without interest and in case the bids are rejected, Authorised Officer can negotiate with any of the bidders or other parties for sale of the property by private treaty If any bidder intends to bid for more than one property under auction, then the bidders has to submit separate bids for each of the properti by following the process as mentioned above
- The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorise Officer / Secured Creditor, but the Authorised Officer / Secured Creditor shall not be answerable for any error, misstatement or omission i
- Any other encumbrances are not known to the Bank except the order dated 14 December 2018 of Securities and Exchange Board of India under section 11(4),11B and 11D of SEBI Act 1992. The Intending bidder is advised to make independent enquiry regarding Pending Litigation, dues of local Authority i.e Municipal Taxes. Maintenance/society charges. Electricity and water Charges and any other dues of
- Taxes, including Transfer Charges/Fee. The Authorized Officer or the Bank shall not be responsible for any charge, lien, encumbrances, or any other dues to the Government or anyone else in respect of property Auctioned. The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding the encumbrances on the property including statutory liabilities, arrears of property tax, electricity dues All statutory dues/ other dues including registration charges, stamp duty, taxes etc. shall have to be borne by the purchaser All outgoings charges i.e. Municipal Taxes, Maintenance/Society charges, Electricity and Water charges and any other dues or taxes including transfer charges / fees in respect of the property put for Auction-cum-Sale under the present notice shall be paid by the successful
- Bidder/Purchaser solely All other incidental charges (including but not limited to security charges or maintenance charges for preservation of the property under the present auction) will be borne solely by the highest bidder from the date of issuance of Certificate of Sale, which will have to be cleared
- reimbursed to the Bank before registration of the Certificate of Sale. However at the sole discretion of the Authorised Officer, any just and reasonable delay will be considered for exemption, without setting any precedent for future.

 As per Section 194-Aof the Income Tax Act, 1961, TDS shall be applicable on the sale proceeds if the sale consideration is Rs.50, 00,000.00 (Rupees Fifty Lakhs only) and above. The Successful bidder/purchaser shall deduct the applicable TDS in favour of Kotak Mahindra Bank
- Ltd., from the sale price and deposit the same with Income Tax Department and submit challan evidencing the deposit of TDS and Form 26OB / TDS Certificate to Kotak Mahindra Bank Ltd. Sale will strictly be on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" on the terms and conditions
- as mentioned herein, however the Authorised Officer shall have the absolute discretionary right to change or vary any of the terms and conditions. The bidders are advised to make their own independent inquiries regarding any encumbrances, Search in Sub-Registrar Office and Revenue Records and Municipal Records and any administrative Government records relating to the concerned Property and shall satisfy themselves regarding the nature and description of the property, condition, any encumbrances, lien, charge, statutory dues, etc. hefore submitting the bid for the concerned Property. Please note that the Bank/Authorised Officer/Secured Creditor does not in any way guarantee or make any representation with regard to the fitness/title of the property/ies/assets under auction. Sale/auction will be strictly on
- If the dues of the bank together with all costs, charges and expenses incurred by them or part thereof as may be acceptable to the bank are tendered by/on behalf of the Borrower/s/Guarantor/s/Mortgagor/s, at any time on or before the date fixed for sale, the auction / sale of asset may be cancelled. The Authorised Officer reserves the right to accept any or reject all bids, if not found acceptable or to postpone/cancel adjourn/discontinue or vary the terms of the auction at any time without assigning any reason whatsoever and his decision in this regard
- The bidders shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of the sale and shall abide by the said terms and
- The bidders should ensure proper internet connectivity; power back up etc., The Bank shall not be liable for any disruption due to interne Failure, power failure, or technical reasons or reasons / contingencies affecting the E-Auction proceedings.

 Kotak Mahindra Bank Limited or its employees will not be liable for any claims from any person in respect of the property/ies put for sale.
- The present notice is also uploaded on the Bank's official website i.e. www.kotak.com and interested parties can wisit the same also. In case there is any discrepancy between the publications of sale notice in English and Vernacular newspaper, then in such case the English
- newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be considered as the final copy, thus removing the ambiguity.

 For further details kindly contact Authorised Officer Mr. Viswanadham Akondi (Mobile no. +91-9667221548) or Officer of Bank Mr. Ajay
- Bhargava (Mobile No. +91-9899246151) and Mr. Vipul Dubey (Mobile No. +91-8377905113)

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULES 6(2), 8(6), 8(7) & 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 The borrower/guarantors/mortgagors are hereby notified to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with up to date interest and expenses within 15 (fifteen) days from the date of this notice failing which the "Secured Asset" (mentioned above) will be sold as

Place: Delhi Authorised Officer Date: 07.01.2022 For Kotak Mahindra Bank Ltd. शाखा – नोएडा सेक्टर 63, प्लॉट सं. 27, ब्लॉक एच 1/ए, नोएडा, उ.प्र. 201301

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियाो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (अधिनियम), 2002 के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-सेक्टर-63, नोएडा**, के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 वे नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **मेसर्स शाईन पैकेजिंग (श्री राजीव गोयल पुत्र राधे श्याम** गोयल निवासी पता: डी–115, आनंद विहार, कम्यूनिटी हॉल के पास, नई दिल्ली इसके अलावा फ्लैट सं. यूजी–2, ऊपरी भूतल प्लॉट सं. 8 1 1, **शॉलिमार गॉर्डन, ईसीटी– 1, शाहिबाबाद, गाजियाबाद** को मांग सूचना **दिनांक 30.09.202 1** को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 22,89,523/— (रुपये बाईस लाख नवासी हजार पांच सौ तेईसमात्र) दिनांक 30.09.2021** तक संविदात्मव दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चें पूर्ण चुकौती की दिनांक तक उक्त सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने

ऋण धारक/गयारंटर द्वारा राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हुए हैं, इसलिए एतद्वारा ऋण धारक/गयारंटर तथा सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताकर्ता/अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत इस **जनवरी के 05 वें दिन वर्ष** 2022 को प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक /गयारंटर तथा सर्व सामान्य को एतदुद्वारा उक्त संपत्ति / संपत्तियों के साथ लेन—देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा—सेक्टर—63, नोएडा**, के प्रभार वास्ते **रु. 22,89,523/—(रुपये बाईस लाख नवासी हजार पांच सौ तेईस मात्र) दिनांक 30.09.2021** तक संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चें पण

ु ऋणधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण :

न्यायसंगत बंधक संपत्ति स्थित फ्लैट सं. यूजी–२, ऊपरी भूतल, प्लॉट सं. ८ १ १ , शालिमार गॉर्डन, ईसीटी– १ , शाहिबाबाद, गाजियाबाद् श्री राजीव गोयल पुत्र राधे श्याम गोयल के नाम।

🔰 बैंक ऑफ़ बड़ीदा 8> 555K

्शाखा – नोएडा सेक्टर 63, प्लॉट सं. 27, ब्लॉक एच 1/ए, नोएडा, उ.प्र. 201301 कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियाो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (अधिनियम), 2002 के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–सेक्टर–63, नोएडा**, के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **श्री सुनिल यदुवंशी उर्फ सुनिल यादव पुत्र** श्री विनोद यदुवंशी और श्रीमती संजना यादव पत्नी श्री सुनिल यदुवंशी दोनों निवासी पता : मकान सं. जे—206, ब्लॉक जे, बीटा—॥, ग्रेटर नोएडा, उत्तरप्रदेश 201308 को मांग सूचना दिनांक 29.09.2021 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु 16,49,317.44/- (रुपये सोलह लाख उनचास हजार तीन सौ सन्नह और चौवालीस पैसे मात्र) दिनांक 29.09.2021 तक

अंदर भगतान करने को कहा गया था। ऋण धारक/गयारंटर द्वारा राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हुए हैं, इसलिए एतद्द्वारा ऋण धारक/गयारंटर तथा सर्व सामान्य के सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताकर्ता/अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत इस **जनवरी के** 05 वें दिन वर्ष 2022 को प्राप्त कर लिया है।

संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चें पूर्ण चुकौती की दिनांक तक उक्त सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के

विशेष रूप से ऋण धारक /गयारंटर तथा सर्व सामान्य को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति /संपत्तियों के साथ लेन—देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-सेक्टर-63, नोएडा**, के प्रभार वास्ते **रु**. 16,49,317.44/- (रुपये सोलह लाख उनचास हजार तीन सौ सत्रह और चौवालीस पैसे मात्र) दिनांक 29.09.2021 तक संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चें पूर्ण चुकौती की दिनांक तक के अधीन होगा।

ऋणधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण :

न्यायसंगत बंधक प्लॉट सं. 207, ब्लॉक—जे, सेक्टर बीटा—II, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

नांक : 05.01.2022 स्थान : उत्तर प्रदेश



बैंक ऑफ़ बड़ीदा Bank of Baroda

शाखा – नोएडा सेक्टर 63, प्लॉट सं. 27, ब्लॉक एच1/ए, नोएडा, उ.प्र. 201301कब्जा सूचना सम्पत्ति हेतु) [देखें निय

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियाो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (अधिनियम), २००२ के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा—सेक्टर—63, नोएडाँ**, के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रेतिभूति हिर्त (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शाँकियों के अंतर्गत ऋण धारक श्री राजीव गोयल पुत्र राधे श्याम गोयल और श्रीमती पूजा गोयल पत्नी श्री राजीव गोयल दोनों निवासी पता: डी-115, आनंद विहार, कम्यूनिटी हॉल के पास, नई दिल्ली को मांग सूचना दिनांक 29.09.2021 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू. 18,92,974,86/-(रुपये अद्वार हलाख **बानबे हजार नौ सौ चौहत्तर और छियासी पैसे मात्र) दिनांक 29.09.2021** तक संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चें पूर्ण चुकौती की दिनांक तक उक्त सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

ऋण धारक/गयारंटर द्वारा राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हुए हैं, इसलिए एतद्द्वारा ऋण धारक/गयारंटर तथा सर्व सामान्य को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताकर्ता / अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा. प्रतिभतिहित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत इस **जनवरी के** 05 वें दिन वर्ष 2022 को प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक /गयारंटर तथा सर्व सामान्य को एतदुद्वारा उक्त संपत्ति/संपत्तियों के साथ लेन—देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-सेक्टर-63, नोएडा**, के प्रभार वास्ते रु. 18,92,974.86/- (रुपये अट्ठारह लाख बानबे हजार नौ सौ चौहत्तर और छियासी पैसे मात्र) दिनांक 29.09.2021 तक संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज , लागत , प्रभार और खर्चें पूर्ण चुकौती की दिनांक तक के अधीन होगा।

ऋणधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्याभृत परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण :

न्यायसंगत बंधक संपत्ति स्थित फ्लैट सं. यूजी-2, ऊपरी भूतल, प्लॉट सं. 811, शालिमार गॉर्डन, ईसीटी-1, शाहिबाबाद, गाजियाबाद, श्री राजीव गोयल पुत्र राधे श्याम गोयल के नाम।

इंडियन बैंक

📤 इलाहाबाद

जीएफ−3, सुशान्त लोक फेज−1 विपुल स्क्वायर

Indian Bank

गुड़गाँव, हरियाणा–122009

परिशिष्ट IV [नियम–8(1)] कब्जा–सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जबिक अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिमृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिमृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडियन बैंक आंनद विह अधिक अधिकृत अधिकारी है और धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए) के साथ पढ़ा जाता है, पुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 व नियम 8 और 9 के साथ पढ़ा जाए, ने दिनांक 29.09.2021 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता **मेसर्स औ बालाजी इन्फ्राडेवेलपर प्रा**. लि रिज. ऑफिस: 1/102 ईस्ट एंड अपार्टमेण्ट्स, मयूर विहार फेज-1, एक्सटेंसन दिल्ली-110096। कार्पोरेट आफिस: बी-108, सेक्टर-88, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा को 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 12,95,00,206.17 (रु. बारह करोड़ पच्चानबे लाख दौ सौ छ: तथा पैसे सत्तरह मात्र) और 01.04.2021 तक ब्याज के साथ उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से चुकाने के लिए बुलाया गया।

उधारकर्ता द्वारा राशि का भूगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने धारा 13 की उप धारा (4) के सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 जनवरी 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन—देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेनदेन रु. 12,95,00,206.17 (रु. बारह करोड़ पच्चानबे लाख दौ सौ छः तथा पैसे सत्तरह मात्र) जो 31.03.2021 तक बकाया है और उस पर 01.04.2021 से प्रभावी ब्याज के लिए इंडियन बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

अनुसूची जिन संपत्तियों में सुरक्षा हित सृजित किए गए हैं, उनका विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है:

गिरवी रखी गई संपत्तियां:

लीज होल्ड पर बंधक सम्पत्ति (न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से — 14.01.1980 से 90 साल की लीज) प्लॉट नंबर एफ 42, एफ ब्लॉक, पेटीएम ऑफिस के पास, नोएंडा—सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन, सेक्टर —6 पर औद्योगिक / वाणिज्यिक एल एंड बी। नोएंडा मेसर्स जी मीडिया पी लिमिटेड से संबंधित 1200 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ 796.05 वर्ग मीटर या 951.72 वर्ग गज की दूरी पर स्थित है।

बंधक संपत्तिः कंपनी से संबंधित स्टॉक का बंधक कंपनी की किसी भी साइट पर संग्रहीत।

दिनांकः 03.01.2022, स्थानः सुशान्त लोक, गुडगाँव

प्राधिकत अधिकारी. इंडियन बैंक

प्रपत्र सं. सीएए. 2 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (3) एवं कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 और 7 के अनुसरण में]

कम्पनी आवेदन (सीएए) सं. 107 / (एनडी) / 2021 श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड एवं अपोलो ट्राइकोट द्यूब्स लिमिटेड तथा एपीएल अपोलो द्यूब्स लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरघारकों तथा क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम के विषय मे सदस्यों तथा क्रेडिटर्स की बैठकों की सूचना का नोटिस और विज्ञापन

श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1966 के तहत निगमित एक कम्पनी, जिसकें कार्पोरेट पहचान संख्या : U85110DL1994PLC224835 है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 37 हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली—110092 में स्थित है

......आवेदक कम्पनी 1/समामेलनकारी कम्पनी अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कम्पनी जिसकी कार्पोरेट पहचान संख्या : L74900DL1983PLC014972 है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालर

37, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली—110092 में स्थित हैआवेदक कम्पनी 2/समामेलनकारी कम्पनी 2

एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कम्पनी जिसकी कार्पोरेट पहचान संख्या : L74899DL1986PLC023443 है तथा जिसका पंजीकृत

कार्यालय 37, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 में स्थित हैआवेदक कम्पनी 3/समामेलित कम्पनी 'आवेदक कम्पनी 1", "आवेदक कम्पनी 2" और "आवेदक कम्पनी 3" एतदपश्चात **"आवेदक कम्पनी**ज

रतदद्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण **("एनसीएलटी")** की नई दिल्ली पीठ **("न्यायाधिकरण")** ने कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए) सं. 107 / (एनडी) / 2021 में आदेश दिनांकित 30 नवम्बर, 2021 **("आदेश")** द्वारा निदेशित किया है कि आवेदक कम्पनीज के इक्विटी . गेयरधारकों, प्रतिभूत क्रेडिटर्स और अप्रतिभूत क्रेडिटर्स की बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") के माध्या में श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड (**"आवेदक कम्पनी 1"** अथवा **"समामेलनकारी कम्पनी 1"**) अपोल ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड (**'आवेदक कम्पनी 2"** अथवा **"समामेलनकारी कम्पनी 2"**) और एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड **('आवेदक कम्पनी 3'** अथवा **"समामेलित कम्पनी")** और उनके उनके संबंधिर शेयरधारको एवं क्रेडिटर्स के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 2013 **('सीए 2013')** की धारा 230 से 232 औ नीए, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के तहत समामेलन की प्रस्तावित स्कीम पर विचार करने और यदि उपयक्त विचारित किया जाए. संशोधन के साथ अथवा उसके बिना. अनमोदन के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाएं। आयोजित की जाने वाली बैठकों का विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया जा रहा है —

		C				
क्र. सं.	आवेदक कम्पनी का नाम	बैठक की श्रेणी	बैठकों का दिन और तिथि	समय (आईएसटी)	बैठक का मान्य स्थान	
1	श्री लक्ष्मी मेटल	इक्विटी शेयरधारक		पूर्वा. 10:00 बजे		
2	उद्योग लिमिटेड	प्रतिभूत क्रेडिटर्स	सोमवार,	पूर्वा. 11:30 बजे		
3		अप्रतिभूत क्रेडिटर्स	07 फरवरी,	अप. 12:30 बजे		
4	अपोलो ट्राइकोट	इक्विटी शेयरधारक	2022	अप. 04:30 बजे	बैठक वीसी के	
5	ट्यूब्स लिमिटेड	प्रतिभूत क्रेडिटर्स		अप. 02:30 बजे	जरिये आयोजित	
6		अप्रतिभूत क्रेडिटर्स		अप. 03:30 बजे	की जाएगी	
7	एपीएल अपोलो	इक्विटी शेयरधारक	मंगलवार,	अप. 02:00 बजे		
8	ट्यूब्स लिमिटेड	प्रतिभूत क्रेडिटर्स	08 फरवरी,	पूर्वा. 10:30 बजे		
9		अप्रतिभृत क्रेडिटर्स	2022	पूर्वा. 11:30 बजे		

कोविड—19 महामारी के फैलने तथा शारीरिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए तथा आदेश के निबन्धनों में बैठक का आयोजन कार्पोरेट मंत्रालय **("एमसीए")** द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14 / 2020 दिनांकित 08 अप्रैल. 2020 के साथ पठित जनरल सर्कलर नंबर 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल. 2020 वे साथ पठित जनरल सर्कुलर नंबर 22 / 2020 दिनांकित 15 जून, 2020 के साथ पठित जनरल सर्कुलर नंब 33/2020 दिनांकित 28 सितम्बर, 2020 के साथ पठित जनरल सर्कुलर नंबर 39/2020 दिनांकित 3 दिसम्बर, 2020 के साथ पठित जनरल सर्कुलर नंबर 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 20/2021 दिनांकित 08 दिसम्बर, 2021 के अनुसार कार्य प्रक्रियाँ अपनाते हुए वीसी के नाध्यम से किया जाएगा। तदनुसार, किसी एक स्थान पर भौतिक उपस्थित के साथ बैठक की आवश्यकर नहीं होगी।

वृंकि बैठक वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः सदस्यों / क्रेडिटर्स की भौतिक उपस्थिति व आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, बैठकों के लिए परोक्षी की नियुक्ति हेतु सुविधा उपलब्ध नई होगी। संस्थानिक निवेशक और बॉडी कार्पोरेट जो संबंधित आवेदक कम्पनी के सदस्य/क्रेडिटर्स है उनको कम्पनी की बैठक में वीसी मोड के जरिये उपस्थित होने और इलेक्टॉनिक वोट डालने हेत पोट्साहित किया जाता है तथा वे वीसी के जरिये इस बैठक में उपस्थित होने तथा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वो डालने के लिए अपना अधिकत प्रतिनिधि नियक्त करने के हकदार हैं। उनको अधिनियम की धारा 112 और 13 के अनुसरण में अपनी ओर से वीसी के जरिये बैठक में उपस्थित होने तथा वोट डालने के लिए अप व्रतिनिधियों को अधिकत करने के संबंध में बोर्ड का प्रस्ताव / पावर ऑफ अटॉर्नी की स्कैन प्रति पीडीएफ / जेपीजी फार्मेट) में संवीक्षक को ई—मेल द्वारा पर <u>corpsrassociates@gmail.com</u> भेजर्न होगी, जिसकी एक प्रति <u>comsec@aplapollo.com</u> को मार्क करनी होगी।

आवेदक कम्पनीज ने वीसी के जरिये बैठक में उपस्थित होने तथा बैठक में भाग लेने हेतु इक्विट रोयरधारकों तथा ∕ क्रेडिटर्स (अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो) (यथा लाग) को रिमोट –वोटिंग तथा ई–वोटिंग सुविध उपलब्ध करवान हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडियाँ) लिमिटे **("सीडीएसएल")** को नियक्त किया है। रिमोट ई—वोटिंग सविधपा केवल आवेदक कम्पनी २ तथा आवेदव कम्पनी 3 के इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध करवाई जा रही है।

उक्त स्कीम तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अधीन विवरण की प्रतियां आवेदक कम्पनी० के पंजीकृत कार्यालय 37, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली—110092 से निःशुल्क प्राप्त की ज सकती हैं। बैठक की सूचना की एक प्रति व्याख्यात्मक विवरण के साथ सीए 2013 की धारा 230 से 232 तक और 102 तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के तहत आवेदक कम्पनी 2 की वेबसाइंट <u>www.apollotricoat.com</u> पर तथ भावेदक कम्पनी ३ की वेबसाइट <u>www.aplapollo.com</u> पर भी उपलब्ध है।

आवेदक कम्पनी २ तथा आवेदक कम्पनी ३ के सदस्य वीसी के जरिये बैठक में उपस्थित हो सकते हैं तथ ... गोट डाल सकते हैं अथवा सीए 2013 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमा 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में बैठक से पूर्व à दिन की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोर डाल सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग का कार्यक्रम नीचे दिया गया है –

	क्र. आवेदक कम्पनी सं. का नाम 1 अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड लिपिटेड		तं. का नाम का आरंभन	
			बृहस्पतिवार, 03 फरवरी, 2022 पूर्वा. 10:00 बजे आईएसटी	रविवार, 06 फरवरी, 2022 अप. 5:00 बजे आईएसटी
	2	एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड	शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 पूर्वा. 10:00 बजे आईएसटी	सोमवार, 07 फरवरी, 2022 अप. 5:00 बजे आईएसटी

संबंधित बैठकों में वीसी के जरिये उपस्थित होने तथा वोट डालने के हकदार व्यक्ति सीडीएसएल दार उपलब्ध कराई जा रही ई–वोटिंग सुविधा का प्रयोग करते हुए बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वार वोट डाल सकते हैं।

किसी पूछताछ / संदेह / शिकायत की स्थिति में सदस्यगण आवेदक कम्पनी 1 व shivam@aplapollo.com पर, आवेदक कम्पनी 2 को surbhiarora@apollotricoat.com पर तथा आवेदक कम्पनी 3 को <u>investors@aplapollo.com</u> पर लिख सकते हैं।

रनसीएलटी ने सुश्री दीपा कृष्णन, पूर्व सदस्य (टेक्नीकल), एनसीएलटी को, उनकी अनुपस्थिति में सुश्र . स्वरतिपि देव रॉय, अधिवक्ता को उपरिवर्णित बैठकों हेतु अध्यक्ष नियुक्त किया है। एनसीएलटी ने सुर्प्र श्रुति रावत, पीसीएस को उपरिवर्णित बैठकों हेतु, उसके किसी स्थगन(नों) सहित, संवीक्षक नियुक्त किया । उपरिवर्णित स्कीम, यदि उपरोक्त बैठक में अनुमोदित की जाती है, माननीय एनसीएलटी की नई दिल्ली पीठ के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

सश्री दीपा कृष्ण दिनांकित 07 जनवरी, 2022 आवेदक कम्पनीज की बैठकों हेतु नियुक्त अध्यक्ष

यू.पी. को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडेरेशन लि., नानौता बिस्टिलरी यूनिट, नानौता (सहारनपुर) ई-मेल nntdistillery@yahoo.co.in

<u>ई-निविदा सूचना</u> इस आसवनी द्वारा बायो—फर्टिलाइजर (लूज खाद) पूर्व बायो—फर्टिलाइजर प्रति 50 किग्रा एचए डीoYloईo / YloYlo बैग को **जहाँ है जैसी है के आधार** पर बिक्रय करने एवं कोटनलडिहाईड एव

डेनोटोनियम बेन्जोएट की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित एवं व्यापार कर में पंजीकृत फर्मे से ईं–टैण्डर व माध्यम से **दिनांक 17–01–2022 तक** निविदायें आंमत्रित की जाती है। निविदादाता को निविदा . संबन्धित टैन्डर फार्म शुल्क रू० 590 / – प्रति टैण्डर और धरोहर धनराशि रू० 1,00,000.00 एवं रू० 20,000.00 यू0पी0 को— आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडेरेशन लि0, नानौता डिस्टिलरी यूनिट, नानौता (सहारनपुर) के पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0 3726000102068647, आई०एफ०सी० कोड–PUNB . 0372600 में ऑन लाइन जमा कराकर जमा रसीद में फर्म का नाम व हस्ताक्षर अंकित कर निविदा वे प्राथ अपलोड करना तथा अपलोड करने के उपरान्त निविदा खोलने की तिथि से पूर्व आसवनी मे कैशियर के पास प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निविदा से संबन्धित अन्य विस्तृ विवरण **दिनांक 08—01—2022 को सांय 6.30 बजे से** website : etender.up.nic.in पर उपलब्ध है अधोहस्ताक्षरी को किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को वगैर कोई कारण बताए निरस्त करने क अधिकार सुरक्षित है। प्रधान प्रबन्धक

> परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार न्य लाईट स्वीटस के भागीदार तजिंदर कमार, शाल उर्फ शाल तजिंदर कमार, दिनेश कुमार, नीलम उर्फ नीलम दिनेश कुमार, कैलाश चंदर, पुनम उर्फ पुनम चंदर, योगराज कंसल्टेंट्स प्रायवेट लिमिटेड, योग राज और निरू को 14.09.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HLAPROH00470689) की राशि रू.57,38,848.20 (रूपये सतावन लाख अड़तीस हजार आठ सौ अडतालीस और बीस पैसे मात्र) और 25.08.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सुचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **05.01.2022** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

वेशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.57,38,848.20 (रूपये सतावन लाख अडतीस हजार आठ सौ अड़तालीस और बीस पैसे मात्र) 25.08.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने

के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

जिमन मापित 105 स्क्वे. यार्डस में दुकान नं. 494, 495 के सभी भाग और खंड, वॉर्ड नं. 11, पुरानी सब्जी मण्डी, किला रोड, संपत्ति पता - दुकान का नाम न्यू लाईट स्वीटस् से पहचाना जाता है, पुरानी सब्जी मण्डी में स्थित, रोहतक, हरियाणा - 124001, परिबध्द है -

पूर्व : सडक पश्चिम : पुलिस चौकी उत्तर : सुख दयाल की संपत्ति दक्षिण : नथू राम की संपत्ति

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 05.01.2022 स्थान : रोहतक इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

एसबीएफसी फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड

(पूर्ववर्ती स्माल बिजनेस फिनक्रेडिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट सं. 103, पहली मंजिल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉमप्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059

मांग सूचना

चूंकि, यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों ने रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटेड ("आरएचएफएल") से वित्तीय सहायता हासिल की थी। कार्य सुपर्दगी विलेख के अनुसार, आरएचएफएल ने वित्तीय सम्पत्तियों तथा अन्य अधिकारों को प्रतिभूतिकरण न्यास के पक्ष में हस्तांतरित तथा सुपूर्द कर दिया। तदुपरांत, प्रतिभृतिकरण न्यास ने नीचे उल्लेखित प्रतिभतियों को कर्क करने के साथ इस तरह के सभी कार्य के लिए एसबीएफसी फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड को नियक्त किया है। हमलोग यह उल्लेख करते हैं कि वित्तीय सहायता हासिल करने के बावजूद कर्जदारों/गिरवीदाताओं ने चुकता करने की नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मुलधन की रकम चुकता करने में कई बार विफल हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार यहां नीचे उल्लेखित संबंधित तिथियों को खाते को अनर्जक सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, इसके फलस्वरूप, अधिकृत अधिकारी ने प्रतिभृतिकरण तथा वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत यहां नीचे उल्लेखित तिथियों को मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें नीचे उल्लेखित कर्जदारों/गिरवीदाताओं को सुचनाओं की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सुचनाओं में उल्लेखित रकम पर अनुबंधकीय दर पर आगे के ब्याज तथा भुगतान की तारीख तक आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि रकम चुकता करने को कहा गया था।

उनको उनके अंतिम ज्ञात पतों पर जारी की गई सुचनाएं असेवित वापस आ गई तथा इसलिए एतदद्वारा उन्हें इसके संबंध में सार्वजनिक सुचना द्वारा जानकारी दी जाती है।

	, 6	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0
कर्जदार का नाम/पता तथा ट्रस्ट का नाम	सूचना एवं एनपीए की तारीख	ऋण सं. एवं बकाया रकम	प्रत्याभूत सम्पत्तियों का विवरण
 रवीन्द्र सिंह इंद्रजीत सिंह जगदेव सिंह जीतेन्द्र सिंह रणजीत सिंह जगजीत सिंह जगजीत सिंह मकान नं. डब्ल्यूजेड 862/3, गली नं. 15ए, साध नगर, पालम कॉलोनी, दिल्ली-110045 		ऋण खाता नं. आर एचएल पीडीई एल 100054423 (पीआर 00708415) ऋण की रकमः रु. 1650000/- (रुपये सोलह लाख पचास हजार मात्र) बकाया रकमः 9 नवम्बर, 2021 को रु. 1418725/- (रुपये चौदह लाख अद्वारह हजार सात सौ पच्चीस मात्र)	पालम कॉलोनी, ग्राम पालम का क्षेत्र, दिल्ली में साध नगर के नाम से ज्ञात अबादी में खसरा नं. 97/1 में से 82 वर्ग यार्ड परिमाप के क्षेत्र वाला मकान नं. डब्ल्यूजेड- 862/3 सम्पत्ति के हिस्से का पूर्ण स्वामित्व वाली रिहायसी सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वंगीण हिस्सा तथा सम्पत्ति की चौहदीः पूर्व में - 25 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में - सम्पत्ति का हिस्सा, उत्तर में - 8 फीट चौड़ी गली, दक्षिण में - अन्य की सम्पत्ति।
ट्रस्ट का नामः इंडियन रिसिवल ट्रस्ट 19- सीरिज-5 दिनांक 28-फरवरी-19			
1. रमेश कुमार जैन 2. विशाल जैन 3. सिम्मी सिंघल 4. दीपांशु जैन मकान नं. 93, राजधानी एनक्लेव, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, दिल्ली-110034 5. एस एस पाइपिंग एसएस पाइपिंग, 524बी, मेन मार्केट के पीछे, सुदर्शन पार्क, मोती नगर, दिल्ली-110015 ट्रस्ट का नाम: इंडियन रिसिवल ट्रस्ट 19-	अगस्त, 2021	ऋण खाता नं. आर एचएलापीडीई एला000063834 (पीआर00709487) ऋण की रकमः रु. 7295000/- (रुपये बहत्तर लाख पनचानवे हजार मात्र) बकाया रकमः ९ नवम्बर, 2021 को रु. 7133693/- (रुपये इकहत्तर लाख तैंतीस हजार छह सौ तिरानवे मात्र)	ग्राम बसाईदारापुर के राजस्व एस्टेट में, सुदर्शन पार्क, मोती नगर, नई दिल्ली के नाम से ज्ञात कॉलोनी में स्थित खसरा नं. 4024/733 में से परिमाप 210 वर्ग यार्ड यानी 175.6 वर्ग मीटर परिमाप की सम्पत्ति सं. 524-बी का सम्पूर्ण एवं सर्वगीण हिस्सा साथ में भूमि के नीचे सभी पूर्ण स्वामित्व अधिकार तथा सम्पत्ति की चौहदीः पूर्व में - अन्य की सम्पत्ति, पश्चम में-गली, दक्षिण में-अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में - अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में - अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में - अन्य की सम्पत्ति,
ट्रस्ट का नामः इंडियन रिसिवल ट्रस्ट 19-			

ऊपर उल्लेखित परिस्थितियों के अनुसार, एतद्द्वारा ऊपरोक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर भविष्य के ब्याज तथा लागू शुल्कों के साथ ऊपर उल्लेखित विवरण के अनुसार बकाया रकम चुकता करने के लिए सूचना दी जाती है, अन्यथा इस सूचना के 60 दिनों की समाप्ति के उपरांत प्रत्याभूत सम्पत्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी जिसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके अधीन लागू नियमों के अंतर्गत कर्जदारों तथा गिरवीदाताओं की प्रत्याभत सम्पत्तियों पर कब्जा किया जाना शामिल है।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन कोई भी कर्जदार प्रत्याभूत ऋणदाता की लिखित सहमति के बगैर इस सूचना में उल्लेखित अपनी प्रत्याभूत सम्पत्तियों को बिक्री, पट्टे अथवा अन्य किसी भी रूप में हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे।

अधिकत अधिकारी तारीखः 8 जनवरी, 2022 एसबीएफसी फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड स्थानः दिल्ली

एसेट वसूली प्रबंधन शाखा

🗞 इण्डियन ओवरसीज बैंक

रचना बिल्डिंग, चौथा तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली-110008, फोनः 011-25758124, ईमेलः iob1997@iob.in अचल / चल संपत्तियों की बिक्री [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8(6) / 6(2) के प्रावधानों के तहत]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का नं. 54) के तहत बैंक को बंधक अचल संपत्ति/ओं की बिक्री

सीरिज-5 दिनांक 28-फरवरी-19

सही/

जबकि, इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक के बकाया देयों और नीचे वर्णित ब्याज एवं लागतों की वसूली के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के तहत धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित ऋण खाते में जारी नोटिस के अनुसरण में निम्नलिखित संपत्ति / यों का "जहाँ **हैं, जो हैं", "जो हैं जैसी हैं"** और "जै**सी भी हैं"** आधार पर बिक्री अधिकार सहित कब्जा ले लिया और बकाया देयों के पुनर्भुगतान में असफल होने पर अधोहस्तक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उक्त संपत्ति / यों की बिक्री द्वारा बैंक के देयों की वसूली का प्रस्ताव करता है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेब पोर्टल https://ibapi.in पर दिए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जायेगी।

क्र.	कर्जदारों के नाम	इंडियन ओवरसीज	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जे	आरक्षित मूल्य	नीलामी की तिथि
सं.	जमानतियों के नाम	बैंक को देय राशि	ज्ञात भार यदि कोई हो	का प्रकार	धरोहर राशि जमा	निविदा जमा करने
1	मैसर्स राजेश जेम्स एंड ज्वैल्स	₹.	होति नार यदि फाइ है। लॉट 1: पट्टाधारी समस्त प्रथम तल बिना छत अधिकारों के, संपत्ति नं. 2521, गली नं. 7, बार्ड नं. XVI, बीदनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली। 531 वर्ग फूट		बोली वृद्धि राशि लॉट 1: रु. 95.60 लाख	की अंतिम तिथि
1.	प्रा. लि. 1. राजेश लूथरा 2. श्रीमती अवीण लूथरा किकी सूचना की तारीख 03.01.2022	86,10,14,786/- दिनांक 12.02.2016 को भविष्य की ब्याज और लागतों सहित	पुपर एरिया, जाट एरिया 59 वर्ग गज (संपत्ति आईडी— IOBA1997RG01) ***लॉट 2: पट्टाधारी समस्त भूतल (बिना छत अधिकारों के), संपत्ति नं. 2521, गली नं. 7, बार्ड नं. XVI, बीदनपुरा, करोल बाग, कवर्ड एरिया— 422 वर्ग फुट, ज्लाट एरिया 59 वर्ग गज (संपत्ति आईडी— IOBA1997RG02) ***लॉट 2: पएं स्वामित्त समस्त भूतल (बिना छत अधिकारों के), संपत्ति नं. 2519—20 (साथ लगी संपत्ति नं. 2521), गली नं. 7, बार्ड नं. XVI, बीदनपुरा, करोल बाग, कवर्ड एरिया— 195.75 वर्ग फुट, ज्लाट एरिया 83 वर्ग गज (संपत्ति आईडी— IOBA1997RG03) लॉट 4: पट्टाधारी समस्त दूसरा तल छत अधिकारों सिहत, संपत्ति नं. 2521, गली नं. 7, बार्ड नं. XVI, बीदनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली। 531 वर्ग फुट सुपर एरिया, ज्वाट एरिया 59 वर्ग गज (संपत्ति आईडी— IOBA1997RG04) लॉट 5: पट्टाधारी दूसरे तल का आगे का भाग, संपत्ति नं. XVI/2533—40 की यूनिट ए, गली नं. 6 व 7, अजमल खां रोड, बीदनपुरा, करोल बाग। 1125 वर्ग फुट सुपर एरिया, (लाट की बाउड्डी में), कवर्ड एरिया 1341 वर्ग फुट, ज्लाट एरिया 439 वर्ग गज (संपत्ति आईडी— IOBA1997RG05) लॉट 6: पट्टाधारी दूसरे तल का आगे का भाग, संपत्ति नं. XVI/2533—40 की यूनिट वी, गली नं. 6 व 7, अजमल खां रोड, बीदनपुरा, करोल बाग। 825 वर्ग फुट सुपर एरिया (जाट की बाउड्डी में), कवर्ड एरिया 1036 वर्ग फुट, ज्लाट एरिया 439 वर्ग गज (संपत्ति आईडी— IOBA1997RG06) लॉट 7: पट्टाधारी दूसरे तल का थीछे का भाग, संपत्ति नं. XVI/2533—40 की यूनिट सी, गली नं. 6 व 7, अजमल खां रोड, बीदनपुरा, करोल बाग। 2001 वर्ग फुट सुपर एरिया (जाट की बाउड्डी में), कवर्ड एरिया 1272 वर्ग फुट, ज्लाट एरिया 439 वर्ग गज (संपत्ति आईडी— IOBA1997RG06) लॉट 8: पट्टाधारी सुर्यर लक्ष का बाउड्डी में), कवर्ड एरिया अंग नं. 9 की और, साथ लगी संपत्ति नं. 2486, संपत्ति आईडी— IOBA1997RG07) लॉट 8: पट्टाधारी पुट कवर्ड एरिया (संपत्ति आईडी— IOBA1997RG08) लॉट 8: पट्टाधारी पुट कवर्ड एरिया (संपत्ति आईडी— IOBA1997RG08) लॉट 8: पट्टाधारी पुट कवर्ड एरिया (संपत्ति आईडी— IOBA1997RG08) लॉट 8: पट्टाधारी पुट कवर्ड एरिया (संपत्ति आईडी— IOBA1997RG08) लॉट 8: पट्टाधारी पुट सुपर एरिया, प्लाट एरिया 439 वर्ग गज (संपत्ति आईडी— IOBA1997RG09) सभी संपत्तियाँ बैंक के भीतिक कब्जे में हैं। "लंटिन नं. 2 व 3 की संपत्ति संप्तत्ति अप में बेची प्रायेगी)	भौतिक	लॉट 2: रु. 134.70 लाख लॉट 3: रु. 62.36 लाख लॉट 4: रु. 66.26 लाख लॉट 6: रु. 141.73 लाख लॉट 6: रु. 103.94 लाख लॉट 7: रु. 252.07 लाख लॉट 8: रु. 338.00 लाख लॉट 1: रु. 09.56 लाख लॉट 1: रु. 09.56 लाख लॉट 2: रु. 134.7 लाख लॉट 3: रु. 06.24 लाख लॉट 3: रु. 06.24 लाख लॉट 4: रु. 06.70 लाख लॉट 6: रु. 10.40 लाख लॉट 6: रु. 10.40 लाख लॉट 6: रु. 2521 लाख लॉट 7: रु. 25.21 लाख लॉट 8: रु. 03.52 लाख लॉट 9: रु. 33.80 लाख रु. 25,000/- प्रत्येक लॉट	27.01.2022 25.01.2022
2	मेसर्स वीएसएनके प्रिसिसन एंड	₹.	श्रीमती किरन कपूर, श्रीमती निधि कपूर और श्री सुभाष कपूर द्वारा स्वामित्व पूर्ण स्वामित्व इंडस्ट्रियल संपत्ति 27/42, लक्ष्मी रतन	सांकेतिक	ড. 88.61 লা ख	27.01.2022
	ऑटोमोटिव कम्पोनेट्स प्रा. लि.	1,54,14,118.12/-	कम्पाउंड, निकट हार्डवेयर चौक, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा—121001, प्लाट एरिया 260 वर्ग गज	2101-9	ড. 8.87 লা ख	25.01.2022
	1. वीनस कपूर	दिनांक	(संपत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में हैं।)		₹. 10,000 ∕ −	
	2. निधि कपूर	30.09.2017 को	कोई नहीं			
	3. किरन कपूर	भविष्य				
	4. सुभाष कपूर बिक्री सूचना की तारीख	की ब्याज और				
	06.01.2022	लागत सहित				

जहाँ भी लागू हो आयकर अधिनियम की धारा 194(आईए) के अनुसार आरक्षित मूल्य में 1.00% कर शामिल है।

• ईएमडी जमा दिनांक 11.01.2022 से प्रारंभ • यह बेहतर है कि इच्छुक निविदाकार बोली आरक्षित मूल्य से कम से कम एक बोली वृद्धि गुणक / वृद्धि के साथ शुरू करें।

• बिक्री के विस्तृत निबंधन व शर्तों के लिए कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट www.iob.in [https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E_Auction] या https://ibapi.in पर दिया लंक देखें। 🛮 यह सूचना उक्त ऋण के कर्जदार/ओं और जमानती/ओं/बंधककर्ताओं के लिए प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम–8(6)/नियम 9(1) के तहत उपरोक्त तिथि को ई—नीलामी आयोजन के संबंध में सूचना भी मानी जाए।

स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

श्रीमती निशा सिंह : 95556